

मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन **भोपाल एवं इंदौर ज़ोन** में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु मेहमान प्रवक्ताओं हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर दिनांक 22-08-2017 तक आवेदन कर सकते हैं।

- ऑनलाईन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें** – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक तथा आवेदकों की सहायता हेतु मार्गदर्शिका कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
- आवेदन की जाँच एवं प्रमाणीकरण** – आवेदकों के द्वारा आवेदन में दी गयी जानकारी के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी। चयन होने पर आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड प्रति एवं सम्बन्धित सह दस्तावेजों सहित आवंटित शासकीय आई.टी.आई. में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। आई.टी.आई. द्वारा सत्यापन उपरांत पोर्टल में प्रमाणीकरण की जानकारी दर्ज की जावेगी। आवेदन के प्रमाणीकरण की पुष्टि ऑनलाईन दर्ज होने पर ही पंजीकृत आवेदन मान्य होगा। अतः समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय पूर्ण सावधानी रखें एवं त्रुटीपूर्ण/असत्य जानकारी ना दें। आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देने की दशा में आवेदक पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भविष्य में विभाग के किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
- आई.टी.आई. एवं व्यवसाय (ट्रेड) की वरीयता**
 - मेहमान प्रवक्ताओं के चयन में आई.टी.आई. एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा दर्शित वरीयता क्रम में शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अधिकतम 10 (न) वरीयता क्रम में चुनने के अवसर प्राप्त होंगे।
 - चयनित आवेदकों की सूची संचालनालय के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। चयनित आवेदकों को आमंत्रण प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में आवंटित आई.टी.आई. में उपस्थित होकर कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण ना करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- रिक्त पदों की जानकारी** – रिक्त पदों की आई.टी.आई. – वार एवं व्यवसाय – वार जानकारी कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
- आवेदन शुल्क** – ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
- मानदेय** –
 - रिसोर्स पर्सन के पद हेतु रु 80/- प्रति घंटा, अधिकतम रु 7,200/- प्रतिमाह
 - ट्रेड एवं ड्राइंग/गणित के पद हेतु रु 110/- प्रति घंटा, अधिकतम रु 10,000/- प्रतिमाह
- आयु सीमा** – दिनांक 01/08/2017 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं।
- कार्य अवधि** – अधिकतम 11 माह अथवा सत्र समाप्ति तक अथवा नियमित पदस्थापना होने तक।
- चयन प्रक्रिया**
 - मप्र शासन द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय रोस्टर बिन्दु के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण लागू होगा।
 - महिला आवेदकों हेतु 30% स्थान आरक्षित होंगे।
 - निःशक्तजन हेतु 6% स्थान आरक्षित होंगे।
 - रोजागार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के परिपत्र क्रमांक DGE&T-19(12)/2010-CD दिनांक 28/09/2010 के परिपालन में डिप्लोमा/डिग्री धारी आवेदकों के प्रत्येक संस्था के प्रत्येक ट्रेड में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
 - उपरोक्त आरक्षण नियमों एवं विभागीय निर्देशों के तहत मेरिट सूची के आधार पर संस्थावार चयन सूची तैयार की जावेगी।

Download our Mobile App
KOUSHALAM for locating ITIs,
Latest Notices, Orders, Circulars,
and Trades Running in ITIs, Staff
Details & much more...

